

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



लद्दाख का राजपत्र The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-08122021-34
SG-LD-E-08122021-34

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 07 दिसंबर, 2021
LADAKH, TUESDAY, DECEMBER, 07, 2021

भाग II- खण्ड 1
Part II-Section 1

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

गृह विभाग
अधिसूचना
लेह, 02 अगस्त, 2021

सा. का. नि 25:- प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निम्नलिखित नियम बनाता है।
अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- (क) इन नियमों को लद्दाख प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम, 2021 कहा जाएगा।
(ख) ये लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 22 सितंबर 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

इन नियमों में, संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।
- (ग) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रशासक, अभिप्रेत है।
- (घ) "अभिकरण" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है।
- (ङ) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका अर्थ है।
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।
- (छ) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाइसेंस अभिप्रेत है।
- (ज) इन विनियमनों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

3. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन-

- (1) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप I में आवेदन कर रहा है तब अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप 2 को भी संलग्न करेगा।
- (2) यदि आवेदक कोई कंपनी कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो प्ररूप I में आवेदन, कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक जैसे कि वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप II के साथ होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में अंतर्वर्तित उपबंधों के संबंध में व्यौरों को सम्मिलित करते हुए वह प्ररूप III में एक शपथ पत्र दाखिल करेगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I, प्ररूप II, प्ररूप III की प्राप्ति पर आवेदन की अन्तर्वस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे कर सकेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपराध और आपराधी के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करेगा।
- (5) जब कभी किसी आवेदक का पूर्ववृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्त का सत्यापन करे परंतु अनुज्ञप्ति जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है, वैद्यता की अवधि के भीतर हो।
- (6) जहां आवेदन दिया गया है, यहां संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विहित फीस के संदाय को दिखाने के लिए देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्ररूप के साथ संलग्न होगा।
- (7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या (1) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से उसे भेजा जाएगा।

- (8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख , उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति अनुदत्त करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप IV में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा।
परंतु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, तब अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रशिक्षण की अपेक्षा आवश्यक नहीं होगी।
- (10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा या अभिकरण द्वारा दिए गए पते पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर को सत्यापित करेगा।
- (11) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रधान कार्यालय को जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति को परिदत्त करवायेगा जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।
- (12) अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की दशा में नामंजूरी का कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक ,
(क) आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो; तथा
(ख) वह आधार जिस पर अनुज्ञप्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उल्लिखित न हो।
- (13) नियंत्रक प्राधिकारी सभी परिपेक्षों से उसे पूर्ण होने की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्ररूप I पर आदेश पारित करेगा।

4. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित, प्रशिक्षण को नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा।
- (2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विरचित करेगा।
- (3) प्रशिक्षण कम से कम छह कार्य दिवस का होगा। प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे अर्थात्
- (i) वर्तमान सुरक्षा रुपरेखा
(क) वीआईपी सुरक्षा
(ख) आंतरिक सुरक्षा
(ग) संस्थागत सुरक्षा
- (ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कृत्य
(क) अग्नि शमन
(ख) आपदा / आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल
(ग) सुरक्षा कर्तव्य
(घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच
(ङ) सूचना सुरक्षा

- (च) अभिगम नियंत्रण
 - (छ) विस्फोटक आईईडीएस
 - (ज) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)
 - (झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर संचार
 - (ञ) संचार उपस्कर
 - (ट) पेट्रोलिंग
 - (ठ) चौकी ड्यूटी
- (iii) विधिक उपबंध
- (क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29 और लदाख प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियम, 2021
 - (ख) सुसंगत श्रमिक विधियों।
 - (iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
 - (क) वर्दी
 - (ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण
 - (ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखा जाना
 - (घ) डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल
 - (v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफेस
 - (क) जनसाधारण के साथ इंटरफेस
 - (ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क
 - (vi) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम) (4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता- पिता का नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति के बारे में सूचित करेगा।
 - (5) अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन या प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देगा।
 - (6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचना देगा और ऐसी संसूचना की एक प्रति उस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जहाँ व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है।
 - (7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों और इन नियमों में यथास्थिति, उनकी प्रशिक्षण शर्तें जिन पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अपेक्षाओं का पालन करेगा।

- (8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के छह माह के भीतर अपने क्रिया कलाप प्रारंभ करेगा।
- (10) क्रिया कलापों के आरंभ किए जाने में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में कार्यालय परिसर का स्थापन और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण. -

- (1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप II और प्ररूप III के साथ प्ररूप I में उसके वैद्यता की अवधि के अवसान होने की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन से पहले और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का पालन करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या कोई व्यक्तियों का संगम है तो प्ररूप I के साथ आवेदन कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक भागीदार, या निदेशक वैसे ही जैसे की वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप II लगा होगा।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति से जैसे कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित है, सत्यापन करेगा।
- (4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप I में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप IV में अनुज्ञप्ति के नवीकरण को अनुदत्त करेगा।
- (5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त न होने की दशा में, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् उसे गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण माना जाएगा।
- (6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि के अवसान के पश्चात्, अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वैसी ही होगी, जैसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए नियम 3 के उपनियम (6) में यथा उल्लिखित हो।
- (8) उपनियम (1) में उपदर्शित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान होने से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन पर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कार्य नहीं होगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी, इसके सभी प्रकार से पूरा होने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप I में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पारित करेगा।
- (10) अनुज्ञप्ति नवीकरण की वैद्यता पहली अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से समझी जाएगी और उसके नवीकरण की तारीख को विचार में लाए बिना पांच वर्ष तक की होगी। विद्यमान अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा में मध्यवर्ती अवधि वैध अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।

- (11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक अधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, बलवा, दैवीकृत्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल है, हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे।

6. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें-

अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुदत्त किया जाएगा अर्थात्-

- (i) आवेदक नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अपने कारवार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा।
- (ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।
- (iii) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा।
- (iv) आवेदक का अपराधिक पूर्ववृत्त न हो जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकेगा।

7. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन.-

- (1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले स्वयं को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के बारे में संतुष्ट करेगा-
 - (क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होकर; परंतु चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।
 - (ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक का इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अभिगम द्वारा जैसे अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस)।
- (2) व्यक्ति जो सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने की वांछा रखता है अभिकरण को प्ररूप v दाखिल करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्ररूप VI में एक शपथपत्र दाखिल करेगा।
- (3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की गई फीस की स्वीकृति करने की व्यवस्था करेगी।
- (4) प्राधिकारी जिसको आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जारी की गई हो।
- (5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट नियोजक की प्राप्ति में परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी पांच वर्षों तक वैध रहेगी।
- (6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के आधार पर प्ररूप VII में एक चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रहे।

8. सरक्षा प्रशिक्षण: -

- (1) नियंत्रक प्राधिकारी राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में होगा,
- (2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होंगे,
 - (क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;
 - (ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण;
 - (ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन / अपार्टमेंट की सुरक्षा कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा,
 - (घ) अग्नि शमन;
 - (ङ) भीड़ नियंत्रण
 - (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच,
 - (छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं,
 - (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;
 - (झ) प्राथमिक चिकित्सा;
 - (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
 - (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक); (ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त का उठाना- रखना और संचालन (वैकल्पिक);
 - (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं);
 - (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बेज;
 - (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;
 - (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और
 - (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए)।
- (3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- (4) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप 8 में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गार्ड/ पर्यवेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे।

- (6) नियंत्रक प्राधिकारी समय - समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेगा। सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
- (7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति में सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।
- (8) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकेंगे परन्तु कोई अभिकरण के सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।
- (9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करेगा।
- (10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रखने या अन्यथा पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपनी नामावली पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

9. सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक फिटनेस मानदंड-

- (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए अर्ह होगा यदि वह नीचे दिए गए शारीरिक मानकों को पूरा करता है-
 - (i) कद 160 से.मी (महिला 150 से.मी.), वजन, कद - वजन की मानक सारणी के अनुसार सीना 80 सेमी. जो 04 सेमी. फूलना चाहिए। (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है)।
 - (ii) नेत्र दृष्टि- दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णाचिता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।
 - (iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य
 - (iv) श्रवण: दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म से पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।
 - (v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।
- (2) अभ्यर्थी किसी छुआ - छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।
- (3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक, 12 माह पश्चात्, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

10. सुपरवाइजरो के लिए उपबंध.-

- (1) पंद्रह से अनधिक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।
- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं, की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी

ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

11. अपील और प्रक्रिया-

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्ररूप IX में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिकी या डिजिटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

12. अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर-

अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रों को इलेक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप X में जाएगी।

13. फोटो पहचान पत्र –

- (1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्ररूप XI में होगा।
- (2) फोटो पहचान पत्र में पूरा चेहरे का रंगीन फोटो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यक्ति की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।
- (3) फोटो पहचान पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में प्रास्थिति और वह तारीख जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी।
- (4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
- (5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और नियोजन में नहीं रहता था उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।
- (6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाना या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया है।

14. अन्य शर्तें:-

- (1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को;
 - (क) अभिकरण को सुभित्र करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज;
 - (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज;
 - (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी;
 - (घ) फीते और सूराख सहित जूते;
 - (ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है; जारी करेगा और उन्हें पहनना बाध्यकर करेगा।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हो और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।
- (3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट - बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

प्ररूप ।**(नियम 3, नियम 5 देखिए)****प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने/ अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन**

सेवा में,
नियंत्रण अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चालने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है।

1. आवेदक का पूरा नाम:
2. आवेदक की राष्ट्रीयता:
3. पुत्र/पत्नी/पुत्री:
- 4 निवास स्थान का पता:
5. पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की वांछा करता है:
6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम:
7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्योरे (यदि लागू हो):

(क) सीआईएन नंबर.....

(ख) ईएसआई नंबर.....

(ग) ईपीएफ नंबर.....

(घ) श्रम अनुज्ञप्ति नंबर.....

(ड) श्रम रजिस्ट्रीकरण नंबर.....

(च) जीएसटी नंबर.....

(छ) कोई अन्य सूचना.....

(ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां / नहीं).....

यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी दें:

(i) एफडीआई का देश.....

(ii) विदेशी शेयरधारक का नाम.....

(iii) विदेशशेयरधारक का पता.....

(iv) विनिधान का वर्ष.....

(v) शेयरों की संख्या:.....

(vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता.....

(vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे.....

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

8. अभिकरण के स्वत्वधारी भागीदार बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पता:

क्र. सं.	प्रबंधन किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष)	नाम	पता	डीआईएन नंबर (यदि हो)	नंबर सहित पहचान का सबूत

9. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार:

10. (क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा?

.....

(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें:

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम:

प्रशिक्षण अभिकरण का पता:

प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे.....

11. सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर

(क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी)

(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी)

(ग) माइन डिटेक्टर

(घ) अन्य उपस्कर

(i) बेतार दूरभाष.

(ii) अलार्म युक्तियां

(iii) बख्तरबंद वाहन

(iv) आयुद्ध

12. वर्दी की विशिष्टताएं, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों का रंगीन फोटो संबद्ध करें):

13. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की वांछा रखता है ?यदि हां तो जिलों का नाम

1. _____

2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

14. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की वांछ रखता है? हां/ नहीं

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

आवेदक का पता
आवेदक का दूरभाष नंबर
आवेदन की तारीख

संलग्नक :

1. अभिकरण के परिसर के फोटो
2. सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।
3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हो)
4. वर्दियों का रंगीन फोटो।
5. ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों) ।
6. वर्तमान आय -कर निकासी प्रमाण पत्र की प्रति।
7. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित शपथ-पत्र ।
8. अन्य संलग्नक 1

प्ररूप II
(नियम 3 और 5 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

टिप्पण: यदि आवेदक कोई कंपनी कोई फर्म, कोई व्यक्तियों का संगम है तो यह प्ररूप कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक है, द्वारा भरा जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु		
प्ररूप संख्या	पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	तारीख

फीस रकम रु नगद / मांगदेय ड्राफ्ट बैंक का नाम मांगदेय ड्राफ्ट सं जारी करने की तारीख

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरे: (सावधान: कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में : गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति की अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1. आवेदक का नाम (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

अंतिम नाम..... प्रथम नाम.....

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें.....

3. लिंग (पुरुष / महिला).....

4. जन्म तिथि तारीख / माह/वर्ष):.....

5. आधार संख्या.....

6. पैन संख्या:.....

7. जन्म का स्थान - गांव/टाउन.....

जिला..... राज्य और देश

8. पिता का पूरा नाम / विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

9. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

10. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

11. वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)-

.....
-दूरभाष संख्या/ मोबाइल संख्या।

12. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे हैं, लिखिए :

(तिथि/मास/वर्ष).....

13. स्थायी पता गली नं. / थाना-ग्राम और जिला (पिन कोड सहित).....

14. यदि आपने स्तंभ (11) में दिए गये पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए

..... से..... तक,

पता.....

15. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो.....

16. अन्य ब्यौरे:

(क) शैक्षणिक अर्हताएं:

(ख) पूर्व में यदि किस पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता:

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने का कारण :

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिह्न:

(ङ) पिछले तीन वर्ष की आय कर विवरणी:

क्रमांक निर्धारण वर्ष

आईटीआर की प्रति संलग्न है (हां / नहीं)

संख्या:

1.

2.

3:

(च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथ-पत्र संलग्न है: हां/ नहीं

17. क्या आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले परिचालित किया था या इसके भागीदार,

बहुसंख्यक शेयर धारक या निर्देशक थे? यदि हां तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञप्ति का विवरण दीजिए।.....

18. क्या आप जन्म/विरासत /रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आपके पास अन्य कोई नागरिकता थी तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करें।.....

19. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए निर्णय की प्रतिसंग्रह करें).....

20. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए ।

21. स्वतः घोषणा :

इस प्ररूप तथा संग्रहों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूं।
(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख.....

स्थान.....

संग्रहक :

.....
.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-III

(नियम 3(2) / नियम 5 (1) देखिए)

शपथ पत्र

मै.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री.....निवासी

.....(फर्म / अभिकरण/ कंपनी का पता) स्थित

मैसर्स (फर्म/ अभिकरण/कंपनी का नाम) का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठान और घोषणा करता हूँ कि:

1. यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।
2. यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।
3. यह कि स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो निम्नानुसार है:

क्र.सं	स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम	फर्म / अभिकरण कंपनी का पदनाम स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक	निवास का पता

4. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशक कंपनी के प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण / कंपनी के संबंध में कोई कपट अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतर्गत अनुमोचित दिवालिया भी है।
5. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/ निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।
6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक--
 - (क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते हैं जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया है, या
 - (ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
7. अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

8. फर्म / अभिकरण / कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।
9. अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
10. अभिसाक्षी और फर्म/ अभिकरण / कंपनी के सभी भागीदार / निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
 - (i) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है।
 - (ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरें।
 - (iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;
 - (iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
 - (v) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञाप्तिको जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का उपबंध कर सकेगा।
11. यह कि अभिसाक्षी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

यह कि अभिसाक्षी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है।
(ब्यौरों को संलग्न करें)

12. अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक अनुज्ञाप्ति की शर्तों का और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे। और मैसर्स..... नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन:- मैं.....तारीख.....को तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथ पत्र की उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है और कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

टिप्पणी :

- (i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।
- (ii) बिंदु संख्या अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है।
- (iii) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।
- (iv) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

प्ररूप - IV

(नियम 3 (10) देखिए)

सरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या.....

तारीख.....

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम:.....

श्री..... (आवेदक का नाम

पुत्र/पुत्री..... निवासी.....को

पते पर स्थित कार्यालय से..... जिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा

अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए..... प्रशासन के नियंत्रक प्राधिकारी

द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान.....

जारी करने की तारीख.....

यह अनुज्ञप्ति.....तक वैध है।

हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

नवीकरण

(नियम 5 (4))

क्र.सं..

नवीकरण की तारीख

अवसान की तारीख

1.

2.

3.

4.

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

प्ररूप V

(नियम 7 (2) देखिए)
सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक के हस्ताक्षर.....

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	तारीख

फीस रकम रु नकद / मांगदेय ड्राफ्ट बैंक का नाम मांगदेय ड्राफ्ट सं.....

जारी करने की तारीख.....

(सावधान: कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से अभ्यर्थी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन / काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।) आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

1. अंतिम नाम. _____ प्रथम नाम _____
2. यदि अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।

3. लिंग (पुरुष / महिला) _____

4. जन्म तिथि (तारीख / माह / वर्ष) : _____

5. आधार नं. _____

6. जन्म का स्थान ग्राम / नगर _____ जिला _____ देश और राज्य _____

7. पिता का पूरा नाम/विधि संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) _____

8. माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) _____

9. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) _____

10. वर्तमान आवासीय पता, गली, सडक सं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें).....

दूरभाष सं. / मोबाइल नंबर.....

11. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस तारीख से निवास कर रहे हैं : तारीख/माह / वर्ष.....
12. स्थायी पता गली नं./ पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित).....
13. यदि आपने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) का उल्लेख करें।
से.....तक..... पता.....
14. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो उनका ब्यौरा दीजिए।

15. अन्य ब्यौरे:

- (क) शैक्षिक अर्हताएं:.....
- (ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हो तो नियोक्ता का नाम और पता :.....
- (ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण.....
- (घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह:.....
- (ङ) ऊंचाई (सें.मी).....
- (च) अधिनियम की धारा 10 (1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ-पत्र सलग्न है।
हां / नहीं
16. क्या आप केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम कानूनी निकाय में सेवारत हैं।
हां / नहीं
17. क्या आप जन्म / विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? यदि आपके पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें.....
18. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रतिसंलग्न कीजिए)
19. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए.....
20. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थितिके लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने का प्रतिषेध आदेश जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए.....

21. स्वतः घोषणा :

इस प्ररूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

22. अंगुलियों के निशान

तारीख.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान.....

संलग्नक :

.....
.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-VI
(नियम 7 (2))
शपथपत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/सुश्री..... निवासी..
.....(आवासीय पता.....(फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) स्थित प्राइवेट
सुरक्षा अभिकरण मैसर्स..... (फर्म/ अभिकरण/कंपनी का नाम) में प्राइवेट सुरक्षा
गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान / घोषणा करता
हूँ:

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. यह कि मैंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। मेरे जन्म की
तारीख.....है।
3. यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या
किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अक्षमता के आधार पर पदच्युत या
हटाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन:- मैं एतद्वारा.....(तारीख)..... को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान
करता हूँ कि इस शपथपत्र में उपर दिए गए तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच और सही हैं और इनमें कुछ भी
छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

टिप्पण: प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 10 (2) के उपबंध
अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथ पत्र के पृष्ठभाग पर मुद्रित किए जा सकेंगे जो निम्न प्रकार है:

"धारा 10 : प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं-

(2) ऐसा कोई भी व्यक्तिसक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल,
किसी राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में,
सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है,
प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"

प्ररूप VII
(नियम 7 (6) देखिए)
चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाण पत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियम में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... पुत्र/पुत्री.....जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है,
अच्छे नैतिकचरित्र और आवेदक अच्छी ख्यातिके हैं और पिछले एक वर्ष से निम्न
पते पर लगातार निवास कर रहे हैं
.....

जन्म तिथि
जन्म स्थान
शैक्षिक अर्हता :
व्यवसाय:
वर्तमान पता
स्थायी पता

यह प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र के स्रोत)..... के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी

नाम:
पदनाम :
पता:
दूरभाष नंबर:

जारी करने की तारीख

प्ररूप VIII
(नियम 8 (5) देखिए)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
क्रम संख्या
प्रशिक्षण अभिकरण का नाम
प्रशिक्षण अभिकरण का पता
प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या.....
[इस अभिकरण की मान्यता तारीख..... तक वैध है]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री पुत्र/पुत्र श्री.....
निवासी..... ने से
तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप
में नियुक्ति या काम कर रहे जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उसके हस्ताक्षर नीचे सत्यापित हैं।

प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

जारी करने का स्थान

जारी करने की तारीख

प्ररूप IX
(नियम 11 देखिए)
अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील
अपीलकर्ता
पुत्र/पुत्री _____ निवासी _____

बनाम

नियंत्रक अधिकारी / _____

तारीख _____ के _____ (नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश और प्राइवेट सुरक्षा
अभिकरण.....(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए
अनुज्ञप्तिअस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध, उपर्युक्त अपीलकर्ता..... (राज्य के गृह
सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

संलग्नक दस्तावेजों की सूची:

.....

हस्ताक्षर
अपीलकर्ता का नाम व पदनाम

तारीख:

स्थान:

प्ररूप X
(नियम 12 देखिए)
विशिष्टियां- रजिस्टर
(रजिस्टर-क प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति/व्यक्ति यों के नाम	माता-पिता/पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तारीख
1.						

(रजिस्टर ख: प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्र.सं.	गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों के निशान	कर्मचारी संख्या	तारीख सहित वेतन ईएसआई, ईपीएफ संख्या और बैंक / शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है 1
1.									
2.									

(रजिस्टर-ग ग्राहक)

क्र.सं.	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहां सुरक्षा प्रदान की जाती है 1	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	सेवा समाप्त की तारीख

(रजिस्टर-घ ड्यूटी रोस्टर)

क्र.सं.	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए हैं।	ड्यूटी प्रारंभ करने की तारीख और समय	ड्यूटी समाप्त करने की तारीख और समय

प्ररूप XI

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो-पहचान-पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान-पत्र सं.....

नाम.....

कार्यालय पदनाम.....

कर्मचारी सं.....

रक्त समूह.....

जारी करने की तारीख.....

तक वैध है।.....

रंगीन फोटो

पहचान-पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर**कार्यालय की मोहर**

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."